



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 711]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 29, 2010/ पौष 8, 1932

No. 711]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 29, 2010/PAUSA 8, 1932

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 1025(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, इस अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के अनुसार चेन्नई पत्तन के संबंध में निम्न का प्रकाशन करती है।

अनुसूची

चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट

दिनांक 9 सितम्बर, 2003 को भारत सरकार, पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए अधिसूचना सा. का. नि. 730(अ) के तहत तथा दिनांक 10 सितम्बर, 2003 भारत के असाधारण, राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित असाधारण मामले के आधार पर चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के निम्नलिखित नियम/विनियम/बाई-लॉस में जहाँ भी 'मद्रास' शब्द का प्रयोग होता है वहाँ 'चेन्नई', का प्रतिस्थापन किया जाएगा।

1. पोर्ट आफ मद्रास (मालों के उत्तरदायित्व) विनियम, 1975 ।
2. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पत्तन न्यास प्रत्याभूति का प्रबंध और जारी करना) विनियम, 1978 ।
3. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (सामान्य बीमा निधि) विनियम, 1980 ।
4. मद्रास पोर्ट सुरक्षा विनियम, 1981 ।
5. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (थोक कार्गो की संहलाई के लिए व्यक्तियों के लाइसेंसिंग या जहाजों के पेन्टिंग तथा क्लीनिंग भाग और चिप्पिंग का निष्पादन) विनियम, 1987 ।
6. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (स्टीवडोरो की लाइसेंसिंग) विनियम, 1987 ।
7. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (खतरनाक/जोखिम कार्गो वाले भाड़ा कन्टेनरों की संहलाई) विनियम, 1987 ।
8. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (जहाजों के आसेध, रोकना, ब्रेचना) विनियम, 1988 ।
9. पोर्ट आफ मद्रास के बोर्ड के न्यासीगणों (समिति बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2002 ।
10. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (विभागाध्यक्षों की नियुक्ति) विनियम, 1991 ।
11. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (नियुक्ति, पदोन्नति आदि) विनियम, 1977 ।
12. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पाइलटों की लाइसेंसिंग) विनियम, 1975 ।
13. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1987 ।
14. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1988 ।
15. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (छुट्टी) विनियम, 1987 ।
16. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (वेतन व भत्ते, आदि) विनियम, 2001 ।
17. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (सामान्य भविष्य निधि) विनियम, 1997 ।

18. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (अंशदायी भविष्य निधि) विनियम, 1997 ।
19. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवा-निवृत्ति) विनियम, 1976 ।
20. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन) विनियम, 1987 ।
21. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1976 ।
22. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (ट्रस्ट के अस्पताल में चिकित्सा हाजिरी तथा अस्पताल प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति) विनियम, 1994 ।
23. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद बहिरंग और अंतरंग चिकित्सा सुविधा अंशदान) विनियम, 1989 ।
24. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (सवारी अग्रिम की मंजूरी) विनियम, 1994 ।
25. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (त्यौहार और प्राकृतिक संकट के लिए अग्रिम मंजूरी) विनियम, 1994 ।
26. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति) विनियम, 1993 ।
27. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (परिवार सुरक्षा निधि) विनियम, 1977 ।
28. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (कल्याण निधि) विनियम, 1978 ।
29. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (शतवर्षीय स्मारक निधि) विनियम, 1985 ।
30. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट पेंशनर्स [पेंशन के बकाए के भुगतान (नामांकन)] विनियम, 1996 ।
31. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (पेंशन निधि) विनियम, 1974 ।
32. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट (वेतन क्षतिपूर्ति में अंशदायी हानि) विनियम, 1989 ।
33. मद्रास पोर्ट (हारबर क्राफ्ट) विनियम, 1980 ।
34. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट सामान्य बाई-लॉस
35. पोर्ट आफ मद्रास के लिए स्थाई आदेश
36. मद्रास पोर्ट ट्रस्ट बोर्ड का आवास तथा क्वार्टर्स में रहने को शासित करने वाले नियम ।

2. मद्रास का नाम बदलना

अन्यथा किसी भी संदर्भ में आवश्यक हो, किसी भी नियम, विनियम, बाई-लॉ, अधिसूचनाएं, या इन नियम, विनियम, बाई लॉ, के अधीन जारी आदेश में आने वाला शीर्षक "मद्रास" नाम को, इसके भारत के राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद "चेन्नै" के नाम पर बदला जाएगा।

3. मान्य और बचत

किसी भी अधिसूचना, आदेश, इन्स्ट्रूमेंट, नियम, विनियम या बाई-लॉ या किसी ऐसे अधिसूचना, आदेश, इन्स्ट्रूमेंट, नियम, विनियम या बाई-लॉ के तहत पहले ही अर्जित/प्राप्त किए गए किसी अन्य अधिकार, लाभ, दायित्व को अधिसूचना में बताए अनुसार "मद्रास" नाम को "चेन्नै" नाम से प्रतिस्थापित करते हुए पिछले प्रचालन पर कुछ भी बाधा नहीं पड़ेगा ।

[फा. सं. पी. आर.-12016/12/2008-पी ई 1]

राकेश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2010

G.S.R. 1025(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby publishes the following with regard to Chennai Port Trust as set out in the schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

CHENNAI PORT TRUST

In pursuant to the notification No. GSR.730(E) dated 9th September, 2003 issued by the Government of India, Ministry of Shipping (Ports Wing) and published in Part II, Section 3 Sub-section (i) of the Extraordinary issue of the Gazette of India dated 10th September, 2003, the words "Madras" has been substituted as "Chennai" wherever it occurs in the following Rules/Regulations/Bye-Laws of Chennai Port Trust :

1. Port of Madras (Responsibility for Goods) Regulations, 1975.
2. Madras Port Trust (issue of Management of Port Trust Securities) Regulations, 1978.
3. Madras Port Trust (General Insurance Fund) Regulations, 1980.
4. Madras Port Safety Regulations, 1981.
5. Madras Port Trust (Licensing of Persons for Handling Bulk Cargo or Performance of Chipping and Painting and Cleaning Parts of Ship) Regulations, 1987.

6. Madras Port Trust (Licensing of Stevedores) Regulations, 1987.
7. Madras Port Trust (Handling of Freight Containers Containing Dangerous/Hazardous Cargo) Regulations, 1987.
8. Madras Port Trust (Distraint of Arrest and Sale of Vessels) Regulations, 1988.
9. Board of Trustees of the Port of Madras (Procedure at Committee Meetings) Regulations, 2002.
10. Madras Port Trust (Recruitment of Heads of Departments) Regulations, 1991.
11. Madras Port Trust Employees' (Appointment, Promotion, etc.) Regulations, 1977.
12. Madras Port Trust (Licensing of Pilots) Regulations, 1975.
13. Madras Port Trust Employees' (Conduct) Regulations, 1987.
14. Madras Port Trust Employees' (Classification, Control and Appeal) Regulations, 1988.
15. Madras Port Trust (Leave) Regulations, 1987.
16. Madras Port Trust (Pay and Allowances, etc.) Regulations, 2001.
17. Madras Port Trust (General Provident Fund) Regulations, 1997.
18. Madras Port Trust (Contributory Provident Fund) Regulations, 1997.
19. Madras Port Trust Employees' (Retirement) Regulations, 1976.
20. Madras Port Trust (Pension) Regulations, 1987.
21. Madras Port Trust Employees' (Acceptance of Employment after Retirement) Regulations, 1976.
22. Madras Port Trust Employees' (Medical Attendance in the Trust's Hospital and Reimbursement of Hospital Charges) Regulations, 1994.
23. Madras Port Trust Employees' (Contributory Outdoor and Indoor Medical Benefit after Retirement) Regulations, 1989.
24. Madras Port Trust Employees' (Grant of Conveyance Advance) Regulations, 1994.
25. Madras Port Trust Employees' (Grant of Advances for Festival and Natural Calamities) Regulations, 1994.
26. Madras Port Trust Employees' (Reimbursement of Tuition Fees) Regulations, 1993.
27. Madras Port Trust Employees' (Family Security Fund) Regulations, 1977.
28. Madras Port Trust (Welfare Fund) Regulations, 1978.
29. Madras Port Trust Centenary Commemoration Fund) Regulations, 1985.
30. Madras Port Trust Pensioners' [Payment of Arrears of Pension (Nomination)] Regulations, 1996.
31. Madras Port Trust (Pension Fund) Regulations, 1974.
32. Madras Port Trust (Contributory Loss in Wages Compensation) Regulations, 1989.
33. Madras Port (Harbour Craft) Rules, 1980.
34. Madras Port Trust General By-Laws.
35. Standing Orders for the Port of Madras.
36. Madras Port Trust Board's Residences and Quarters Rules governing their occupation.

2. **Construction of reference to "Madras"** : Unless the context otherwise requires any reference to the name "Madras" appearing in the title or in any of the Rules, Regulations, Bye-Laws, Notifications or orders issued under any such Rules, Regulations, Bye-Laws or in any Instrument shall after these are published in the Official Gazette be construed as reference to "Chennai".

3. **Validation and Savings**: Nothing contained in this notification substituting the name "Chennai" in place of "Madras" shall affect the previous operations of any Notification, Order, Instrument, Rule, Regulation or Bye-Laws or any right, privilege, obligation or liability already acquired or incurred under any such Notification, Order, Instrument, Rule, Regulation or Bye-Law.

[F. No. PR-12016/12/2008/PE-I]

RAKESH SRIVASTAVA, Jt. Secy.